



प्रेस नोट 15.04.21

कोतवाली - रोजा जनपद - शाहजहांपुर (उ.प्र.)

निकट रेलवे स्टेशन रोजा, शाहजहांपुर पिनकोड 242406

मो09454404219

Email-so-roja.sj@up.gov.in

थाना रोजा पुलिस ने मात्र 08 घण्टे में ही अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया ।

दिनांक 14.04.2021 को थाना रोजा पर वादी मुकदमा मो0 नबी पुत्र मेहेन्दी हसन निवासी हथौडा बुजुर्ग द्वारा मु0अ0सं0 175/21 धारा 363 भा.द.वि पंजीकृत कराया गया कि वादी के पुत्र मो0 सैफ उम्र 07 वर्ष को आईस्क्रीम खिलाने के बहाने बहला फुसलाकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्यपहरण समय 15.30 बजे कर लिया गया था। जिसकी काफी खोज बीन की गयी परन्तु नहीं मिला ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर घटना को गम्भीरता से लेते हुए अपहृत बालक की सकुशल शीघ्र बरामदगी करने हेतु श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व श्री अरविन्द कुमार क्षेत्राधिकारी सदर निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 15.04.21 को मुकरमपुर पिपरिया सडक के बीच से अभियुक्त को गिरफ्तार कर बच्चे की सकुशल बरामदगी की । तथा बच्चे को उसके परिजनो के सुपुर्द किया गया । जिससे पाकर बच्च के परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद दिया ।

इस तरह थाना रोजा पुलिस टीम ने मात्र 8 घण्टे के अन्तराल में ही अपहृत बालक को सकुशल मय अभियुक्त के बरामद कर लिया गया । जिसकी जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंशा की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम पता :

1. दीपक गुप्ता उर्फ दीपू (उम्र 20 वर्ष) पुत्र भोले नाथ निवासी जगना थाना इमलिया सुलतानपुर जिला सीतापुर ।

घटना कारित किये जाने का कारण-:

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरी 2 वर्ष पूर्व लुधियाना में तरन्नुम से मुलाकात हुई थी और लव मैरिज कर लिया था । मेरा 9 माह का बच्चा पीयूष है। करीब कुछ माह पूर्व में अपने परिवार के साथ सीतापुर आ गया था । तथा दिनांक 11.04.21 को अचानक मेरी पत्नी बिना बताये घर से बच्चे को लेकर चली गयी। मैं अपनी बीबी बच्चे को ढूँढते हुए हथौडा बुजुर्ग आकर मैंने साढ़ू मो0 नबी के घर की तलाश आईस्क्रीम बेच कर की और मेरी पत्नी न मिलने पर मैं अपने साढ़ू के बच्चे को उठा ले गया ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. व.उ.नि सुदीश सिंह सिरोही | 2. उ.नि. अनित कुमार |
| 3. हे0का0 333 अनूप मिश्रा | 4. का0 1019 रघुराज सिंह |
| 5. का0 अजय (सर्विलांस टीम) | 6. का0 संजीव (सर्विलांस टीम) |